

सार्वजनिक संरक्षक

सार्वजनिक संरक्षक कौन होता है?

सार्वजनिक संरक्षक बाल संरक्षण प्रणाली में बच्चों और युवा व्यक्तियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए जिम्मेदार एक स्वतंत्र वैधानिक अधिकारी होता है। इसमें पालक या संबंधी देखभाल, आवासीय देखभाल, संरोध, मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं या सुधारक सुविधाओं में रहने वाले बच्चे और युवा व्यक्ति शामिल हैं।

सार्वजनिक संरक्षक का कार्यालय (ओपीजी) अपने सामुदायिक आगंतुकों और बाल अधिवक्ता - कानूनी अधिकारियों के माध्यम से वैयक्तिक वकालत उपलब्ध कराता है। सामुदायिक आगंतुक और बच्चों के अधिवक्ता यह सुनिश्चित करके बच्चों और युवा व्यक्तियों को सहायता और समर्थन उपलब्ध कराते हैं कि उनके विचारों और इच्छाओं को सुना जा रहा है और उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है।

एक बाल सामुदायिक आगंतुक कैसे सहायता कर सकता है?

When do we help you? ओपीजी सामुदायिक आगंतुक बच्चों की वकालत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब भी किसी बच्चे या युवा व्यक्ति को उनकी मदद, समर्थन या सलाह की ज़रूरत होती है, तो वे उपलब्ध होते हैं; यह बच्चों या युवा व्यक्तियों की देखभाल की व्यवस्था, उनके अधिकारों, या बस उनसे संबंधित मामलों के बारे में हो सकता है।

देखभाल में आने वाले या इसमें पुनर्प्रवेश करने वाले हरेक बच्चे के पास सामुदायिक आगंतुक मिलने के लिए आता है और उसके बाद बच्चे या युवा व्यक्ति की व्यक्तिगत ज़रूरतों के आधार पर नियमित मुलाकातें निर्धारित की जाती हैं।

निम्नलिखित कुछ उदाहरण यह दर्शाते हैं कि एक सामुदायिक आगंतुक किसी बच्चे की मदद कैसे कर सकता है:

- यह सुनिश्चित करना कि जिस स्थान पर वे रह रहे हैं, वहाँ उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है
- किसी बच्चे या युवा व्यक्ति के विचारों को उसके बाल सुरक्षा अधिकारी के सामने व्यक्त करना
- समस्याओं या विवादों को हल करने में सहायता देना
- देखभाल छोड़कर बाहर जाने के लिए उन्हें स्वतंत्र बनने में सहायता देना।

एक बाल अधिवक्ता - कानूनी अधिकारी कैसे सहायता कर सकता है?

ओपीजी कानूनी अधिकारियों की एक राज्यव्यापी टीम के माध्यम से बाल संरक्षण प्रणाली में मौजूद बच्चों और युवा व्यक्तियों को सलाह, जानकारी, मदद और समर्थन उपलब्ध कराता है:

- ऐसे कानूनी मामलों के बारे में जानकारी और सलाह उपलब्ध कराना, जिनके बारे में वे चिंतित हैं
- अपने विचारों को सुनवाने और उनको ध्यान में रखे जाने में मदद देना, जब परिवार की सामूहिक बैठकों, अदालत और ट्रिब्यूनल की सुनवाई में उनकी देखभाल-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले निर्णय लिए जा रहे हों
- अदालत की बैठकों में सहायता प्रदान करना और कानूनी व अन्य प्रतिनिधित्व का आयोजन करना
- बाल-सुरक्षा द्वारा बच्चे की सुरक्षा के लिए किए गए किसी फैसले, या बाल-संरक्षण के आदेशों के संबंध में किसी अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन लाने में सहायता करना
- किसी बच्चे या युवा व्यक्ति की स्कूल से निलंबन या बहिष्करण किए जाने के संबंध में सहायता करना।



Interpreter

और अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें

सार्वजनिक संरक्षक का कार्यालय

फोन: नि:शुल्क कॉल 1800 661 533 या 07 3225 8325

एसएमएस: 0418 740 186

ईमेल: child@publicguardian.qld.gov.au

वेबसाइट: www.publicguardian.qld.gov.au

यदि आप हमसे संपर्क करके अपनी भाषा में किसी मुद्दे को समझाया जाना चाहते/चाहती हैं, तो कृपया 13 14 50 पर अनुवाद और दुभाषिया सेवा (टीआईएस) को फोन करें और उनसे सार्वजनिक संरक्षक से संपर्क करने के लिए कहें।